

B.Com. (Part-II) Examination
INCOME TAX & AUDITING
(Commerce)

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 70

Note :— ALL questions are compulsory.

SECTION—A

(Income Tax)

1. (a) Explain the concept of “Previous Year” and “Assessment Year”. 5
- (b) Explain the Income which are not included in total income. 5

OR

- (c) Explain the concept of ‘Assessee’. 5
- (d) Explain the concept of ‘Resident’. 5
2. The following are the particulars of Mr. Parivesh, for the previous year 2016-2017 :

Particulars	Amt. Rs.
Basic Salary	2,90,000
Dearness Allowance	1,34,000
House Rent Allowance	64,000
Rent paid for House	28,000
Interest free loan from employer on 01/04/2016	1,00,000
Reimbursement of Medical Expenses (treatment is done in a Private Hospital)	40,000
Profession Tax paid	2,500
Contribution towards Recognised Provident Fund :	
— Self	40,600
— Employer	40,600
Servant Salary Paid by Employer	26,000
Gas and Electricity Bill Paid by Employer (60% of Gas and Electricity is for personal use and balance 40% is for office use)	12,000

Additional Information :—

- (i) General rate of interest is @ 8.5%.

On the above information calculate Income from Salary of Mr. Parivesh for the Assessment year 2017-2018. 15

OR

Mr. Rajendra owns a house in Mumbai. $\frac{1}{2}$ portion of said house is let out for residential purposes on a monthly rent of Rs. 10,000 p.m. however, this portion remained vacant for three months from 01/01/2017 to 31/03/2017. $\frac{1}{4}$ portion of said House used by Mr. Rajendra for the purpose of his profession. While the remaining $\frac{1}{4}$ portion of said House is used for his own residence for full year.

The expenses regarding the house are :

Particulars	Amount Rs.
(i) Municipal tax	10,000
(ii) Repairs	5,000
(iii) Interest on Loan for renovation of House	40,000
(iv) Ground Rent	2,000
(v) Annual charge	10,000
(vi) Fire Insurance Premium	4,000

Expected Rent of Let out house property is Rs. 1,20,000.

From the above information compute the Income from House property of Mr. Rajendra for the Assessment year 2017-18. 15

3. (a) Explain the deduction of U/S 80 (TTA). 5
- (b) Explain the deduction of U/S 80 (D). 5

OR

- (c) Explain the 'Best Judgement Assessment'. 5
- (d) Explain the Self Assessment. 5

SECTION—B

(Auditing)

4. (a) Explain the objectives of Auditing. 5
- (b) Distinguish between verification and valuation. 5

OR

- (c) Distinguish between Internal check system and Internal Audit. 5
- (d) Explain "Vouching is backbone of Audit". 5
5. (a) Distinguish between Clean Audit Report and Qualified Audit Report. 5
- (b) Explain the provisions regarding appointment of Company Auditor. 5

OR

- (c) Explain the power of Company Auditor. 5
- (d) What are the duties of Company Auditor regarding 'Divisible profit' ? 5
6. Explain the points to be considered while auditing the books of Banking Company. 15

OR

Explain the points to be considered while Auditing the books of Insurance Company. 15

B.Com. (Part-II) Examination
INCOME TAX & AUDITING
(Commerce)

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 70

(मराठी माध्यम)

सूचना :— सर्व प्रश्न सोडविणे अनिवार्य आहेत.

विभाग—अ

(आयकर)

1. (अ) 'गतवर्ष' व 'करनिर्धारण वर्ष' ची संकल्पना स्पष्ट करा. 5
 (ब) एकूण उत्पन्नात समाविष्ट न होणारी उत्पन्न कोणते ते स्पष्ट करा. 5

किंवा

- (क) करदात्याची संकल्पना स्पष्ट करा. 5
 (ड) रहीवासीची संकल्पना स्पष्ट करा. 5
 2. श्री परिवेश यांनी दिलेली पुढील माहिती 2016-2017 या वर्षाशी संबंधित आहे :

विवरण	राशी रु.
मूल वेतन	2,90,000
महागाई भत्ता	1,34,000
घरभाडो भत्ता	64,000
घराचे भाडे दिले	28,000
सेवा योजना द्वारे व्याज मुक्त ऋण 01/04/2016	1,00,000
खाजगी दवाखान्याच्या खर्चाची क्षतिपूर्ती	40,000
व्यवसाय कर शोधन	2,500
मान्यता प्राप्त भविष्य निधीत योगदान :	
— स्वतः चे	40,600
— सेवायोजकाचे	40,600
सेवायोजका द्वारे करदात्याच्या घरगुती नौकराच्या पगाराचे शोधन	26,000
सेवायोजका द्वारे करदात्याच्या गॅस व विद्युत बिलाचे शोधन (60% गॅस व विद्युत खाजगी उपयोगासाठी व बाकी 40% कार्यालयीन कामासाठी उपयोग होतो)	12,000

अतिरिक्त माहिती :—

(i) ऋणाचा सर्वसाधारण व्याजाचा दर 8.5% प्रतिवर्ष आहे.

उपरोक्त माहितीच्या आधारे श्री परिवेश यांचे वेतनापासून उत्पन्नाचे आगणन करनिर्धारण वर्ष 2017-2018 साठी करा.

15

किंवा

श्री राजेंद्र यांचे मूंबई येथे स्वमालकीची गृहसंपत्ती आहे. या गृह संपत्तीतील $\frac{1}{2}$ भाग प्रतीमाह 10,000 रु. ने निवासासाठी भाड्याने दिला आहे. हा भाग 01/01/2017 ते 31/03/2017 या तीन महिन्यांच्या कालावधीत खाली होत, या घराचा $\frac{1}{4}$ भाग श्री राजेंद्र स्वतःच्या व्यवसाया साठी उपयोगात आणतात. या गृहसंपत्तीतील बाकी $\frac{1}{4}$ भाग श्री राजेंद्र स्वतःच्या निवासा साठी संपूर्ण वर्ष उपयोगात आणतात.

घरासंबंधी खर्च पुढील प्रमाणे :

विवरण	राशी रु.
(i) नगरपालीका कर	10,000
(ii) दुसऱ्या	5,000
(iii) गृह संपत्तीच्या नवीनीकरणासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याज	40,000
(iv) भू-भाडे	2,000
(v) वार्षिक प्रभार	10,000
(vi) अग्नि विमा प्रव्याज	4,000

भाड्याने दिलेल्या गृह संपत्तीचे अपेक्षित भाडे 1,20,000 रु. आहे.

उपरोक्त माहिती च्या आधारे कर निर्धारण वर्ष 2017-2018 साठी श्री राजेंद्र यांचे गृहसंपत्ती पासून उत्पन्नाचे आगणन करा.

3. (अ) अनूच्छेद 80 (TIA) ची कपात स्पष्ट करा. 5
- (ब) अनूच्छेद 80 (D) ची कपात स्पष्ट करा. 5

किंवा

- (क) सर्वोत्तम कर निर्धारण स्पष्ट करा. 5
- (ड) स्वयं करनिर्धारण स्पष्ट करा. 5

विभाग—व

(अंकेक्षण)

4. (अ) अंकेक्षणाचे उद्देश स्पष्ट करा. 5
- (ब) सत्यापण व मूल्यांकन यातील अंतर स्पष्ट करा. 5

किंवा

- (क) अंतर्गत नियंत्रण पद्धती व अंतर्गत अंकेक्षण यातील अंतर स्पष्ट करा. 5
- (ड) "प्रमाणन अंकेक्षणाचा पाठीचा कणा आहे." स्पष्ट करा. 5

5. (अ) स्वच्छ अहवाल व योग्यता प्राप्त अहवाल यातील अंतर स्पष्ट करा. 5
- (ब) प्रमंडळ अंकेक्षकाच्या नियुक्ती बाबत तरतूदी लिहा. 5

किंवा

- (क) प्रमंडळ अंकेक्षकाचे अधिकार स्पष्ट करा. 5
- (ड) वितरण योग्य लाभासंबंधी अंकेक्षकाची कर्तव्ये स्पष्ट करा. 5

6. अधिकोष प्रमंडळाच्या लेखा पुस्तकाचे अंकेक्षण करते वेळी कोणती मुद्दे लक्षात घ्याल ते स्पष्ट करा. 15

किंवा

- विमा प्रमंडळाच्या लेखा पुस्तकाचे अंकेक्षण करते वेळी कोणती मुद्दे लक्षात घ्याल ते स्पष्ट करा. 15

B.Com. (Part-II) Examination
INCOME TAX & AUDITING
(Commerce)

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 70

(हिन्दी माध्यम)

सूचना :— सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

विभाग—अ

(आयकर)

1. (अ) 'गतवर्ष' एवं 'करनिर्धारण वर्ष' की संकल्पना स्पष्ट कीजिए। 5
- (ब) 'कुल आय' में जोड़ी नहीं जानेवाली आय के पदों को स्पष्ट कीजिए। 5
- अथवा
- (क) 'करदाता' की संकल्पना स्पष्ट कीजिए। 5
- (ड) 'निवासी' की संकल्पना स्पष्ट कीजिए। 5
2. निम्नलिखित जानकारी श्री परीवेश की गतवर्ष 2016-2017 से संबंधित है :

विवरण	राशी रु.
मूल वेतन	2,90,000
महंगाई भत्ता	1,34,000
मकान किराया भत्ता	64,000
मकान किराया भुगतान	28,000
नियोक्ता द्वारा दिया गया ब्याज मुक्त ऋण 01/04/2016	1,00,000
निजी चिकित्सालय के वैद्यकीय व्यय की क्षतिपूर्ति	40,000
व्यवसाय कर का भुगतान	2,500
मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में योगदान :	
— स्वयं	40,600
— नियोक्ता	40,600
करदाता के घरेलू नौकरों का वेतन नियोक्ता द्वारा शोधन	26,000
करदाता के गैस एवं बिजली खर्च का नियोक्ता द्वारा शोधन (60% गैस एवं बिजली व्यक्तिगत कार्य के लिए प्रयुक्त एवं शेष 40% गैस एवं बिजली कार्यालयीन कार्य के लिए प्रयुक्त)	12,000

अन्य जानकारी :—

(i) ऋण पर ब्याजदर 8.5% प्रतिवर्ष है।

उपरोक्त जानकारी के आधार पर श्री परीवेश के वेतन से आय की गणना करनिर्धारण वर्ष 2017-2018 के लिए कीजिए।

15

अथवा

श्री राजेंद्र की मुंबई में खुद की मकान संपत्ति है। इस मकान संपत्ति का ½ हिस्सा 10,000 रु. प्रतिमाह भाड़े से दिया। जो 01/01/2017 से 31/03/2017 तक तीन माह के लिए रिक्त था। इस मकान संपत्ति का ¼ हिस्सा श्री राजेंद्र स्वयं के पेशे के लिए प्रयुक्त करता है। इस मकान संपत्ति का शेष ¼ हिस्सा श्री राजेंद्र स्वयं के लिए संपूर्ण वर्ष प्रयुक्त करता है।

मकान संपत्ति का व्यय निम्नलिखित है :

विवरण	राशी रु.
(i) नगरपालिका कर	10,000
(ii) मरम्मत	5,000
(iii) मकान संपत्ति के नवकरण हेतु लिए गये ऋण का ब्याज	40,000
(iv) भूमि किराया	2,000
(v) वार्षिक भार	10,000
(vi) अग्नि बीमा प्रब्याज	4,000

किराये से दिये गये मकान संपत्ति का अपेक्षित किराया 1,20,000 रु. है।

उपरोक्त जानकारी के आधार पर श्री राजेंद्र इनके कर निर्धारण वर्ष 2017-2018 के लिए गृह संपत्ति से आय की गणना कीजिए। 15

3. (अ) धारा 80 (TTA) की कटौती स्पष्ट कीजिए। 5
- (ब) धारा 80 (D) की कटौतियाँ स्पष्ट कीजिए। 5

अथवा

- (क) सर्वोत्तम करनिर्धारण स्पष्ट कीजिए। 5
- (ड) स्वयं करनिर्धारण स्पष्ट कीजिए। 5

विभाग—व

(अंकेक्षण)

4. (अ) अंकेक्षण के उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। 5
- (ब) सत्यापन एवं मूल्यकन में अन्तर स्पष्ट कीजिए। 5

अथवा

- (क) आन्तरिक नियंत्रण विधि एवं आन्तरिक अंकेक्षण में अन्तर स्पष्ट कीजिए। 5
- (ड) "प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है।" स्पष्ट कीजिए। 5
5. (अ) स्वच्छ प्रतिवेदन एवं योग्यता प्राप्त प्रतिवेदन में अन्तर स्पष्ट कीजिए। 5
- (ब) प्रमंडल अंकेक्षक को नियुक्ति से संबंधित प्रावधान स्पष्ट कीजिए। 5

अथवा

- (क) प्रमंडल अंकेक्षक के अधिकार स्पष्ट कीजिए। 5
- (ड) विभाजन योग्य लाभ से संबंधित अंकेक्षक के कर्तव्य कौनसे हैं ? 5

6. अधिकोष प्रमंडल के लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण करते समय किन मुद्दों को ध्यान में रखना चाहिए वे स्पष्ट कीजिए। 15

अथवा

बीमा प्रमंडल के लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण करते समय किन मुद्दों को ध्यान में रखना चाहिए वे स्पष्ट कीजिए। 15